

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन, तीन दिनों के रोमांचक ऑनलाइन कार्यक्रमों के साथ प्राइड का जश्न मनाएगा!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (29 जून, 2020) – कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इस साल अपना प्राइड (Pride) का जश्न ऑनलाइन मना रही है। सिटी ने ब्रैम्पटन के LGBTTIQ2SA समुदाय का जश्न मनाने के लिए, ब्रैम्पटन में प्राइड मंथ (Pride Month in Brampton) के दौरान, 5 से 11 जुलाई तक, पील (Peel) में पूरे प्राइड वीक में कार्यक्रमों के साथ एक ऑनलाइन हब (केंद्र) तैयार किया है।

जशनों में शामिल होने के लिए, www.brampton.ca/pride पर जाएं।

5 जुलाई – प्राइड इन द सक्वेयर – आभासी संस्करण (वर्चुअल एडिशन)

5 जुलाई को, ब्रैम्पटन के तीसरे, प्राइड इन द सक्वेयर (Pride in the Square) – आभासी संस्करण का जश्न मनाएं। हालांकि हम व्यक्तिगत रूप से गार्डन सक्वेयर (Garden Square) में इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए गार्डन सक्वेयर ब्रैम्पटन (Garden Square Brampton) के Facebook और Instagram चैनलों पर, प्राइड इन द सक्वेयर एक नए और रचनात्मक तरीके से जारी रहेगा।

पूरा दिन कई प्रकार के रोमांचक, ऑनलाइन मनोरंजन का आनंद लें।

- दोपहर बाद 2 बजे: फे एंड फ्लफी (Fay & Fluffy) के साथ कहानी सुनें – Facebook facebook.com/gardensquarebrampton पर सीधा प्रसारण
- दोपहर बाद 3 बजे: कैनवास आर्ट्स एक्शन प्रोग्रामों (CANVAS Arts Action Programs) के साथ प्राइड गार्डन पार्टी (Pride Garden Party) – Facebook facebook.com/gardensquarebrampton पर सीधा प्रसारण
- शाम 6 बजे: कैटरीना गिब्सन (Katrina Gibson) के साथ “आई” इन्कलूज़, इम्पूव के लिए हैं, गतिविधि – Instagram @gardensquarebrampton पर सीधा प्रसारण
- शाम 7 बजे: क्रिस निंग (Chris Ning) द्वारा लाइव प्रदर्शन – Facebook facebook.com/gardensquarebrampton पर सीधा प्रसारण
- रात 8 बजे: डी.जे. एस डिलिंगर (DJ Ace Dillinger) के साथ प्राइड आफ्टर पार्टी (Pride After Party) – Instagram @gardensquarebrampton पर सीधा प्रसारण

प्राइड इन द सक्वेयर – आभासी संस्करण, टी.डी.बैंक (TD Bank) द्वारा उदारतापूर्वक प्रायोजित किया जा रहा है।

8 जुलाई – प्रेरणादायक यूथ स्पीकर सीरीज

कॉमेडियन और लेखक ब्रैंडन एश-मोहम्मद (Brandon Ash-Mohammed) के साथ प्रेरणादायक चर्चा के लिए, शाम 7 बजे, Instagram @culturebrampton पर सीधा प्रसारण देखें।

ऐश-मोहम्मद को जस्ट फॉर लाफ्स मोन्ट्रियल होमग्रोन टेलेंट (Just For Laughs Montreal Homegrown Talent), टिम सिम्स अवॉर्ड (Tim Sims Award) नामांकित कॉमेडियन, टेलीफिल्म न्यू वॉयसिज अवॉर्ड (Telefilm New Voices Award) विजेता लेखक और द एथनिक रेनबो (The Ethnic Rainbow) (कैनेडा के ब्लैक एल.जी.बी.टी. (LGBT) कॉमेडियन्स के लिए, सबसे पहला और एकमात्र कॉमेडी शो) के तौर पर मान्यता दी गई है। ऐश-मोहम्मद की एल्बम, कैपरीकोर्निकेशन (CAPRICORNICATION), जो पहली बार iTunes कैनेडा कॉमेडी (iTunes Canada Comedy) चार्टों पर #1 पर आई थी। इस एल्बम से वे, कॉमेडी एल्बम रिलीज करने वाले पहले पुरुष समलैंगिक, ब्लैक कॉमेडियन बन गए थे। ऐश-मोहम्मद, हाल ही में सी.बी.सी./टी.वी.ओ. (CBC/TVO) के डॉक्युमेंट्री शो, स्टैंड अप टोरोंटो (Stand Up Toronto) में भी आए थे। यह शो 2018 के शुरू में आया था, जिसकी काफी प्रशंसा हुई थी। वे फील्ड ट्रिप फेस्टिवल (Field Trip Festival), JFL42 में भी आए थे और उन्होंने जे.एफ.एल. मोन्ट्रियल (JFL Montreal) में जूलियो टोरेस (Julio Torres) के लिए शो की शुरुआत भी की थी।

9 जुलाई – दिस इज ब्रैम्पटन: लाइव ऑनलाइन

द रोज़ ब्रैम्पटन (The Rose Brampton) द्वारा पेश किया जाने वाला, दिस इज ब्रैम्पटन: लाइव ऑनलाइन (This is Brampton: Live Online), प्राइड के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन पेश करेगा। शाम 7:30 बजे, द रोज़ के, Facebook, [facebook.com/therosebrampton](https://www.facebook.com/therosebrampton) पर सीधा प्रसारण देखें।

दिस इज ब्रैम्पटन: लाइव ऑनलाइन, ब्रैम्पटन की कुछ सबसे अच्छी प्रतिभाओं को, दुनिया को दिखाने की, द रोज़ ब्रैम्पटन की साप्ताहिक ऑनलाइन कोन्सर्ट सीरीज है। यह सीरीज, लोकल कलाकारों को मंच और पेशेवर कलाकार फीस प्रदान करके, उन्हें सहयोग करती है। अप्रैल में शुरू होने के बाद, इस सीरीज को 20,000 से अधिक लोगों ने देखा और प्रत्येक महाद्वीप के दर्शकों ने इसका स्वागत किया।

दिस इज ब्रैम्पटन: लाइव ऑनलाइन, अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) द्वारा उदारतापूर्वक प्रायोजित किया जा रहा है।

सोशल बनें!

#ShowYourPrideBrampton का प्रयोग करते हुए, पूरा सप्ताह सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां, तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए और जश्न मनाते हुए हर किसी के साथ जुड़े रहें।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और हम कोविड-19 को हमारे शहर में, जोशीले LGBTTIQ2SA समुदायों को मान्यता देने के रास्ते में नहीं आने दे सकते। www.brampton.ca/pride पर, हम हर उम्र के व्यक्तियों के लिए कला, प्रदर्शन और प्रोग्रामिंग के द्वारा ऑनलाइन जश्न मना रहे हैं। मेरा परिवार और मैं, पूरा सप्ताह इन कार्यक्रमों का आनंद लेंगे! लव इज लव इज लव।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारा विविध और सम्मिलित शहर कई प्रकार के रोमांचक ऑनलाइन कार्यक्रमों के साथ पील में प्राइड वीक का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कोविड-19 के कारण हम इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से जश्न नहीं मना सकते, इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूँ कि इस सप्ताह के लिए www.brampton.ca/pride को बुकमार्क कर लें, कार्यक्रमों का आनंद लें और मज़े करें।”

- गुरप्रीत धिल्लों (Gurpreet Dhillon), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर

“इस वर्ष, समुदाय को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए, हम ब्रैम्पटन के प्राइड संबंधी कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ घर में जश्न की तैयारी करें – आप लोकल रेस्टोरेंट्स से भोजन ऑर्डर कर सकते हैं, डांस पार्टी का आयोजन कर सकते हैं और पूरा सप्ताह ऑनलाइन कार्यक्रम देख सकते हैं।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर*

“चूंकि हम सिटी को दुबारा खोलने के लिए काम कर रहे हैं, समुदाय का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी सबसे उच्च प्राथमिकता है। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि इस वर्ष प्राइड का जश्न ऑनलाइन और सुरक्षित रूप से मनाएं। कोविड-19 के संबंध में, ब्रैम्पटन के अगले कदमों के बारे में अन्य विवरण, आने वाले सप्ताहों में उपलब्ध होंगे।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी के स्टाफ ने, इस वर्ष के प्राइड संबंधी कार्यक्रमों के लिए एक शानदार ऑनलाइन हब तैयार किया है। अपने परिवार के साथ, प्राइड इन द सकेयर – आभासी संस्करण, प्रेरणादायक यूथ स्पीकर सीरीज और दिस इज ब्रैम्पटन: लाइव ऑनलाइन का आनंद जरूर लें और #ShowYourPrideBrampton का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करें।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)
कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट
स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca